

29अप्रैल 2021

प्रेस विज्ञप्ति

वैक्सीन लेने से पहले करें रक्त दान

विश्व में फैले कोरोना महामारी से बचाव हेतु 1मई से देश में 18 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू होने जा रहा है,। ब्लड बैंक प्रभारी डॉ अवधेश अग्रवाल ने कहा कि अपना नं आने पर टीका आवश्यक लगवाएं। और आप सभी से एक अपील है।

आप स्वस्थ हैं तो वैक्सीन लेने से पहले रक्तदान आवश्यक करें क्योंकि कई राज्यों के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि टीकाकरण के बाद ब्लड बैंकों में रक्त की कमी होने वाली है। टीका लगने के बाद आप दो माह तक रक्त दान नहीं कर सकते, इस तरह भारी संख्या में टीका लगने के बाद रक्त की भारी कमी हो सकती है। राजस्थान पंजाब हिमाचल गुजरात जैसे कई राज्यों में ब्लड बैंक सूखे पड़ गए हैं यह परिस्थिति न आने दें। मानवता की सेवा विशेष रूप से ऐसे लोग या रोगी जिनको नियमित रक्त की आवश्यकता होती है अथवा गंभीर रोगी जिन्हें अकस्मात् खून जीवन रक्षा हेतु ज़रूरी है ऐसे लोगों के प्राणों की रक्षा करें आपके द्वारा प्रदत्त प्राण द्रव एक साथ 4 व्यक्तियों को जीवन प्रदायनी सिद्ध होगी।

आज पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बाकि के गंभीर रोगी हैं जैसे थेलेसीमिया, कैंसर, गुर्दा रोगी, एप्लास्टिक एनीमिया इत्यादि इन मरीजों के समय समय -ब्लड चढ़ाने की जरूरत होती है। आपका रक्त दान ऐसे कई मरीजों के प्राणों की रक्षा करेगा। कोविड का संक्रमण रक्तदाताओं को रक्त दान के माध्यम से नहीं होता रक्तदान करना एक सुरक्षित प्रकृया है।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए ब्लड बैंक परिसर को हर 2 घंटे के अंतराल पर सैनेटाइज किया जा रहा है। गोरखनाथ ब्लड बैंक की पूरी टीम श्री अमित श्री राजीव श्री गिरीश एवम श्री चन्द्रेश्वर के नेतृत्व में पूरी लगन एवं तन्मयता से ब्लड बैंक अधिकारी डाक्टर ममता के मार्गदर्शन में अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं मानवता के लिए रक्तदान करें

"ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता रक्त का कोई विकल्प नहीं होता"

जय हिन्द -जय भारत

